

C-22-11-0259

**APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE**  
सहायता हेतु आवेदन प्रारूप

(Healthcare)  
(स्वास्थ्य देखभाल)

APPLICATION No. : आवेदन संख्या : <b>Al122/0746</b>		APPLICATION DATE : <b>07-11-2022</b> आवेदन तिथि		
NAME of APPLICANT : आवेदक का नाम <b>Sakina</b>		AGE-YEARS आयु-वर्ष <b>47</b>	SEX लिंग <b>F</b>	
FATHER'S/SPOUSE'S NAME : पिता/कटुम्भ का नाम <b>Muridin</b>				
PRESENT RESIDENCE ADDRESS वर्तमान आवासोप पता <b>village-Chaufanki, Teh:-Tizara, Dist:-Alwar</b>				
<b>Rajasthan - 301707</b>				
PERMANENT RESIDENCE ADDRESS : स्थाई आवासोप पता <b>As above</b>				
OCCUPATION : व्यवसाय <b>Home maker (family)</b>		MARRIED (विवाहित) / UNMARRIED (अविवाहित)		
TOTAL ANNUAL INCOME : कुल वार्षिक आय <b>50000</b>		(Attach Proof of Income) (आय का साक्ष्य संलग्न) <b>NA</b>		
PAN No. स्थाई खाता संख्या <b>NA</b>				
ARE YOU AN INCOME TAX ASSESSEE (Tick whichever is applicable): क्या आप आय कर दाता हैं (जो मान्य हो उस पर सही का निरवण लगाए) Yes / No हां / नहीं <input checked="" type="checkbox"/> हां / <input type="checkbox"/> नहीं				
FAMILY DETAILS परिवार विवरण				
Sr. No. क्रम संख्या	Name of Family Member परिवार के सदस्यों का नाम	Age (Years) उम्र (वर्ष)	Gender लिंग	Relation with Applicant आवेदक के साथ सम्बंध
1	<b>Noor deen</b>	<b>50</b>	<b>M</b>	<b>Husband</b>
2	<b>Ahmed</b>	<b>28</b>	<b>M</b>	<b>son</b>
3	<b>Jahida</b>	<b>26</b>	<b>F</b>	<b>Daughter in law</b>
4	<b>Rahul</b>	<b>7</b>	<b>M</b>	<b>grand son</b>
BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable) सहायता के लिये विनती आधार				
BPL Card (Attach Card Copy) गरीबी रेखा के नीचे प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)	EWS Certificate (Attach Certificate Copy) अल्प आय वर्ग प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)	Ration Card (Attach Copy) उपभोक्ता कार्ड (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)	Any Other Basis/Proof अन्य कोई साक्ष्य	
"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE: सहायता हेतु किये गये विनती का उद्देश्य:				
Sr. No. क्रम संख्या	Medical Reports/Prescriptions Attached अस्पताल/डॉक्टर से जारी की गई प्रतिबंदन सूची संलग्न			
1	<b>Diagnosis RE - POSTERIOR POLAR CATARACT LE - POSTERIOR POLAR CATARACT</b>			
2	<b>Surgery - LE - STCS WITH PMMA</b>			
ASSISTANCE BEING AVAILED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES इस उद्देश्य के हेतु कोई अन्य सहायता किसी अन्य स्रोत से लिया गया हो?				
Sr. No. क्रम संख्या	NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम	AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVAILED ली गई सहायता राशी		
1	<b>Nil</b>			



**Preop Postop**  
**0746**  
**Sakina**

